HCL INFOSYSTEMS LTD.

Corporate Office: A-11, Sector 3, NOIDA 201 301, U.P., India
Tel: +91 120 2520977, 2526518, 2526519 Fax: +91 120 2523791
Registered Office: 806 Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019. India.
Corporate Identity Number - L72200DL1986PLC023955

www.hdinfosystems.in

www.hd.com

17th September 2022

То

The General Manager

Department of Corporate Relations BSE Limited

Pheroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street Mumbai 400 001 The Manager

Listing Department

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza

5th Floor, Plot No. C-1, Block G

Bandra Kurla Complex

Bandra (East) Mumbai 400 051

Sub: Submission of newspaper advertisement as per Regulation 30 of SEBI (Listing

Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: NSE : HCL-INSYS

BSE (For Physical Form): 179 BSE (For Demat Form): 500179

Dear Sir/ Madam,

We enclosed herewith copies of the newspaper advertisement confirming dispatch of the revised Annual Report and Corrigendum for the Annual Report for the Financial Year 2021-22, published in "Business Standard" in English and Hindi Edition on 17th September 2022.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you

For HCL Infosystems Limited

Komal Bathla

Company Secretary & Compliance Officer

ED freezes ₹46 cr kept in payment gateways

Easebuzz, Razorpay, Cashfree and Paytm impacted

New Delhi, 16 September

he Enforcement Directorate on Friday froze funds worth over ₹46 crore kept in several payment gateways, including Easebuzz, Razorpay, Cashfree and Paytm.

This action was in connection with the agency's ongoing moneylaundering probe linked to alleged financial irregularities by instant app-based loan companies controlled by Chinese nationals.


The action follows fresh searches this week at premises linked to these payment gateway operators and some companies and operators engaged in loan-app transactions in multiple

"Huge balances were found to be maintained in virtual accounts of the involved entities with payment aggregators -- like ₹33.36 crore was found with Easebuzz Pune ₹8.21 crore with Razorpay Software, Bengaluru, ₹1.28 crore with Cashfree Payments India. Bengaluru, and ₹1.11 crore with Paytm Payments Services, New Delhi," the ED stated.

The agency said that it has carried out searches at six business and residential premises in Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, and Gava, and 16 other premises of banks and payment gateways branches and offices in Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur, and Bengaluru in connection with an investigation related to the app-based token named HPZ and related entities.

The HPZ Token was an app-based token that promised users of large gains against investment by investing in mining machines for bitcoin and other cryptocurrencies, according to the ED. "The modus operandi of fraudsters was to first lure victims to invest in the company on the pretext of doubling their investment through the app HPZ Token," the

It said the payments were received from More on business-standard.com



users through UPIs and other various payment gateways and nodal accounts, or individuals.

A part amount was paid back to investors, and the remaining was diverted to various individual and company accounts through different payment gateways and banks, from where partly it was siphoned off in digital or virtual currencies, the ED pointed out.

Subsequently, these fraudsters stopped payments and the website became inacces-

The investigation further revealed that the HPZ Token was operated by Lillion Technocab and Shigoo Technology, it said. "Shigoo Technology was also found linked to various Chinese controlled companies," the investigation agency said.

It was also revealed that various other companies were indulged in receiving funds from the public on the pretext of operating apps and websites for gaming, loan, and other activ-

The ED suspected Jilian Consultants' links with various companies involved in such fraud

Now get iPhone 14 on Blinkit in 10 mins

The service will be available first in Delhi and Mumbai; Apple reseller Unicorn to store inventory

SHIVANI SHINDE

After grocery, consumers can now order the Apple iPhone 14 from a quick e-commerce platform. Blinkit on Friday announced its tie-up with Apple reseller Unicorn Infosolutions to deliver iPhones and other Apple accessories in just 10 minutes.

This is the first time that Apple products or any electronic item will be sold by a quick e-commerce platform. This service will be available in Delhi and Mumbai for now.

Albinder Dhindsa, founder and CEO, Blinkit, said in a tweet: "We have partnered with @UnicornAPR to bring Apple iPhone and accessories to Blinkit customers within minutes."

When asked if Blinkit shall keep Apple products inventory at its warehouse, a company spokesperson said: "We have partnered with Unicorn, one of the most prominent resellers of Apple products in India, to market and deliver iPhone 14 and other Apple products. Our delivery partners will be delivering products utilising Unicorn's



This may be well the starting point of Blinkit in the electronics segment, which will be a big competition for ecommerce players, such as Flipkart and Amazon where electronic products form the biggest sale category.

"Our mission is to enable online commerce for different categories of local businesses. Our focus is on

FROM GROCERY TO ELECTRONICS

▶ Blinkit will be the first quick e-com platform to deliver electronic products

This move shall put it in direct competition with Flipkart and Amazon

Analysts do not see a major impact because of lack of competitive discounts, say Indian users leverage offers while buying products

instant use cases and everything is part of that...we are a lifestyle platform that serves all needs, daily or otherwise, in the fastest and safest manner possible. We don't see ourselves moving away from the grocery space, but we do see ourselves entering many other spheres of consumer use case," said the company spokesperson when asked if it will enter other categories.

Analysts believed that though Apple getting sold through a quick e-commerce platform would be a first, it may not impact its sales figure. "Apple is a pull product; channels do not play a big part in sales. Yes, those who buy Apple products want products instantly but for them the experience matters, too. Will Blinkit be able to maintain that experience factor?," said Faisal Kawoosa, founder and chief analyst, Techarc.

They were also of the opinion that delivery of electronic products on the same day has been happening for sometime now. "When it comes to Apple or premium category products in India, that cohort is small and unlike e-commerce players who would give discounts, a quick commerce player will not be able to. Indian users like to leverage offers while buying products," said another analyst.

Unicorn has 38 points of interaction nationwide, with Apple Mono Brand Stores and Apple Authorised Service Centres in Mumbai, Pune, Gurugram, Ahmedabad, Lucknow, Chandigarh and New Delhi

More firms' compliance burden to reduce as govt raises 'small company' definition

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 16 September

The government has revised the paid-up capital and turnover thresholds for small companies that will help reduce the compliance burden on more entities. The latest decision by the corporate affairs ministry, which is implementing the companies law, has again revised the definition of small companies and is aimed at further improving the ease of doing

With the amendments to certain rules, the thresincreased to "not exceeding ₹4 crore" from "not report, and such companies need to hold only two

exceeding ₹2 crore". Similarly, the turnover threshold has been revised to "not exceeding ₹40 crore" from "not exceeding ₹20 crore", the ministry said in a release. The revisions will allow more entities to come under the category of small companies.

According to the ministry, small companies are exempted from the requirement to prepare cash flow statement as part of financial statement and can file an abridged annual return. They will not be required to have the mandatory rotation of auditors.

An auditor of a small company is not required to report on the adequacy of the internal financial conhold for small companies' paid-up capital has been trols and its operating effectiveness in the auditor's

To book your copy,

reachbs to 57575

or email us at

order@bsmail.in

board meetings in a year, the release said.

Other advantages are that there are lesser penalties for small companies and annual returns of such entities can be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by a director of the company. "Small companies represent the entrepreneurial aspirations and innovation capabilities of lakhs of citizens and contribute to growth and employment in a significant manner.

The government has always been committed to taking measures which create a more conducive business environment for law-abiding companies, including reduction of compliance burden on such companies," the release said.

Walmart India team playing key role in innovation: ČEO

Bengaluru, 16 September

Walmart's global tech team in India is playing a key role in developing many innovations for the world's largest retailer. These range from automating warehouse management, store modernisation to improving customer experiences.

One of the innovations built by Walmart's global tech team in India is 'Element', an intelligent and collaborative

It will democratise access to all of the artificial intelligence (AI) and machine learning initiatives within Walmart, said Doug McMillon, chief executive officer was speaking at the Converge@Walmart, a retail tech event by Walmart Global Tech held here on Friday.

"It is invisible to our customers but works 24/7 to help improve the experience," said McMillon on a video link. "It is giving our engineers access to problemsolving tools," he added.

McMillon said this platform lets



Doug McMillon, CEO & President, Walmart

Walmart team optimise aisle assortment, (CEO) and president of Walmart Inc. reduce customer wait-times and solve many other problems for the business

"It makes our customers' and associates' lives easier. It's helping us move fast, and with a purpose," said McMillon.

McMillon said the pandemic, disruptions to the supply chain and inflation have affected the way every business operates around the world. He added that they've changed the way people spend and team and partners to deliver value.

save and their perception of value and how they travel, communicate, and work.

These challenges have also opened up a window of opportunity for us to be more empathetic and more agile. And, to reimagine how we can serve our customers and their families better," said McMillon.

He said, "We have a simple but powerful purpose at Walmart, to help people save money and live better. And, we bring that purpose to life every day for about 230 million customers and members every week around the world.

McMillon said one of the keys to delivering on that purpose is to build and deploy technology across businesses.

"Our tech teams play an important role in creating the experiences and capabil-They allow our customers and members to interact with us and access the things they need," he said.

Judith McKenna, president and CEO of Walmart International, said technology is a critical part of how Walmart can provide a seamless customer experience. She said the firm is counting on the technology

CORRIGENDUM Dated 28.07.2022 in this newspaper

ublished Possession Notice for Immovab Borrower- M/s BSS Contractor and A-22 admeasuring should be read and understood as **3600 Suft** instead of 2600 Sqff Authorised Officer, Canara Bank

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED (A Government of India Enterprise) Regd. Office: Eloor Corporate Materials, FACT-PD Administrative Building, Udyogamandal, Kochi Kerala - 683 501, India. Tel: (0484)-256-8633/8260, 2545196 THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED F-mail: deenu cn@factltd.com: noble@factltd.com. Website: http://www.fact.co.in

E-TENDER FOR CLEARING, HANDLING & TRANSPORTATION OF BAGGED PRODUCTS AT VARIOUS RAILHEADS IN KERALA

[ENQUIRY NO. MM/182/E26161 dated 16.09.2022]

Online bids (two cover system) are invited for undertaking the work of Clearing, Handling and Transportation of bagged products at various Rail Heads (RH) in Kerala for a period of 2 years, through https://eprocure.gov.in portal. Any change / Extensions to this tender will be informed only through our website CPP e-procurement portal and will not be published in newspapers Due date/time for submission of bids: 01.10.2022/3.00 PM

Hindi version of this advertisement is published in our website, www fact co, in Udyogamandal Senior Manager (Materials)-T&S-0

HCL INFOSYSTEMS LIMITED CIN: L72200DL1986PLC023955

Regd. Office: 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019 Corporate Office: A-11, Sector – 3, Noida - 201301 (U.P) Tel: +91-120-2520977, 2526518/519, Fax: +91 120 2523791 Email: cosec@hcl.com, Website: www.hclinfosystems.in

CORRIGENDUM TO THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

In continuation to notice of 36th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Company dated 9th August 2022 and the newspaper advertisement dated 27th August, 2022, with respect to the said notice of AGM of the Company and Annual Report for Financial Year 2021-2022, we hereby inform you that certain figures mentioned under clause (viii) (b) o Annexure A of Statutory Auditor's Report for the standalone financial statement (starting from Page number 56 to 61 of the Annual Report) were earlier appearing in INR Lacs a Shareholders are requested to note that in order to rectify the same, the statutory auditor

of the Company have issued a revised Audit Report dated 14th September 2022. In the revised Statutory Audit Report apart from the aforesaid correction, there is no change Further owing to the said revision there is no change in the Financial Statements of the Company for the financial year 2021-2022. The Revised Statutory Auditor Report and corrigendum to the Annual Report have been approved by the Board of Directors on the recommendation of Accounts and Audit Committee, in the meeting held or 14[™] September 2022.

The said corrigendum to the Annual Report for Financial Year 2021-2022 has been sen on 16" September 2022 to the shareholders of the Company through email and to all other persons who are entitled to receive the notice in accordance with section 101 of the Companies Act, 2013 read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. This corrigendum has also been disclosed to the stock exchanges. Further, the copy of the updated Annual Report for Financial Year 2021.

2022 is uploaded on the website of the Company at www.hclinfosystems.in. his Corrigendum forms an integral part of the Annual Report and the Statutory Auditor' Report. The Annual Report and the Statutory Auditor's Report shall be read together with this Corrigendum. Wherever the reference of Statutory Auditor's Report for the financial year 2021-2022 is being given the same shall mean the revised Statutory Audit Report

For and on behalf of HCL Infosystems Limited

Komal Bathla

Company Secretary and Compliance Officer

HC asks domain registrars to appoint grievance officers

Court gives 7 days' time, says brand owners suffer losses due to misuse

New Delhi, 16 September

Observing that trademark and brand owners suffer losses for misuse of their marks by unauthorised websites with similar names, the Delhi High Court has directed domain name registrars within one week for processing complaints against such

websites. Domain name registrars (DNRs) are parties that register a website name for any applicant. Justice Pratibha M Singh said if DNRs do not appoint grievance officers within the said time, the belong to the actual brand Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) will be free to take action against them for not complying with the local

Several petitions have such as Dabur, Amazon, Godrej saying they have suf-DNRs. As DNRs protect the court," she said.

BHAVINI MISHRA & SOURABH LELE privacy of these illegal websites, there is not enough information to take an action against them.

The companies have expressed that there is an absence of an effective mechanism to stop websites or parties from using the domain name and tradeto appoint a grievance officer mark of well-known brands. "By doing so, they are earning money off our brand name," they said.

> The petitions by these companies said the use of such domain names have led some people to believe that websites hosted on some "impostor" domain names owners.

According to Meghna Mishra, partner Karanjawala & Co, this detailed order will set a guideline to reduce online fraud, "When there is a clear been filed by companies intention to commit fraud, the DNRs can block such illegal websites but when fered losses due to inade- two parties are fighting over quate verification and pri- the same trademark the vacy protection features by matter has to be resolved in



Dear Shareholders.

I take pride and great privilege in being blessed with an opportunity to head this prestigious organisation having an illustrious past, a brand value to bank upon and a strong team that delivers consistent results.

The world has changed and is changing, setting new benchmarks. In the past year, your company has risen to the challenge and lived up to its commitment of not only reaching the pre-Covid levels but also surpassing these. International business revenue saw a substantial jump while your company saw momentum across all sectors in the domestic consultancy segment as well.

Your company achieved a consolidated revenue of ₹2745 crore against ₹2005 crore in FY21, up by 36.9%. The operating revenue, excluding other income, stood at ₹2662 crore against ₹1905 crore in FY21. Also, It had a successful year in registering Profit Before Tax and Profit After Tax of ₹735 crore as against ₹593 crore in FY21, up by 24.1%, and ₹539 crore as against ₹444 crore in FY21, up by 21.2% respectively. As targeted, our performance reached our pre-Covid levels with the operating revenue (standalone) of ₹2575 crore which was the highest-ever achieved and being 6.9% higher than the pre-Covid levels of FY20 and Core EBDITA being 6.7% higher than that of FY20. Encouraged by the performance of the company,

your Board of Directors has recommended ₹3.5 per share as a final dividend in addition to the three interim dividends totalling ₹13.5 per share which have already been paid during the year. The total dividend of ₹408 crore (₹17 per share) takes the

₹17 RAILWAYS |


dividend payout (on an accrual basis) of the company to the highest ever and 82.2% of the profits earned. The employee productivity saw a jump by 43% at ₹0.93 crore/ employee, even 14% higher

crore as on March 31, 2022, across a diversified business portfolio. It is fully aware of the changing ecosystem wherein competitive bidding is becoming more and more prevalent across sectors and clients. Your company has a concrete action plan in place to ensure tighter controls on expenses, become more cost-effective and continue to bag orders through competitive bidding. While the margins have been appreciable and the Core EBIDTA (standalone) margins rebounded to the pre-Covid levels, your company continues to focus on disciplined execution of turnkey projects as well as taking on more consultancy works in niche areas.

Your company continues to demonstrate the ability to take on various complex projects in the domestic and international arena such as export of customised cape gauge diesel-electric locomotives and coaches to CFM Mozambique, consultancy for 4-lane national highway in Bangladesh, Final Alignment Design with survey for High-Speed Rail Corridor, Project Management Consultancy for Purvanchal Expressway, Consultancy and Preliminary Design services for Bahrain Metro extension and PMC for Bangalore Metro Line 2A & 2B, Comprehensive Mobility Plan for Guwahati, Feasibility Assessment of Integrated Mass Transit System in Leh & Karqil, to name a few. With an aim to grow and contribute to infrastructure growth, your company has opened its office in Guwahati to expand its operations in the North-East and entered into MoUs with the Mizoram Government and IIT-Guwahati for a spectrum of infrastructure works in the region. With the numerous opportunities provided by the Union Budget 2022-23 with an increased capital outlay for infrastructure projects, it is raring to go and leverage this Further, your company with multi-sectoral expertise is fully aligned with the Government of India's National Infrastructure Pipeline. Gati Shakti Mission. National Monetisation Pipeline, National Rail Plan, and

other cutting-edge flagship schemes. Increased thrust is being given on our vision

Shaping Tomorrow's Mobility



66 We will continue to channelise our energies on leveraging our distinct brand identity, our endeavour always being to follow the mantra: 'Not just more of the same, but much more of the New'

48th ANNUAL GENERAL MEETING Speech of Chairman & Managing Director, RITES Ltd.

business revenue in exports of rolling stock and Your company, uniquely placed to offer smart consultancy across sectors. With the world economy opening up, aggressive business development efforts are being undertaken across continents to secure orders both in the line of credit (LoC) and

Going forward, your company has laid out a vision document for 'Transforming to GREEN' and has chalked out a roadmap to enable sustainable solutions and accelerate green growth. With the launch of the RITES Sustainability unit, your company is expanding its work in smart city planning, providing urban engineering solutions with sustainability and IT-enabled applications as the backbone. With the increasing thrust on Net-Zero carbon emissions, National Clean Air Programme (NCAP) and ESG compliance, your company will expand its bouquet of services in these areas,

solutions that can shape 'Tomorrow's Mobility'. has made, being 'Future Ready', its core mission. The use of IT, digitisation, and adoption of cutting-edge technology form the bedrock of all our initiatives moving forward. With our ear to the ground, we will be evolving and changing our business mix in sync with the ever-changing environment. In this endeavour, we will continue to forge partnerships to complement our strengths to take on the best in class. Your company's Subsidiaries and Joint Ventures -

Place : Noida

Date: 16th September 2022

REMC Ltd., SRBWIPL, and RAPL, have contributed ably to the overall performance. REMC Ltd. has shown 35% growth in operating revenue and 87% jump in profit and will play an important role in Indian Railways' Mission of Net Zero Carbon Emissions. SRBWIPL is aiming at stepping up production in of 'RITES Videsh', consolidating international leveraging its domain expertise and vast experience. the coming years. RAPL has recommenced its

business operations and is pitching to secure orders

believe that uniqueness and strength is our Human Resource Capital

organisational needs

having extensive experience across sectors, which, in many ways, is incomparable. Employee-centric initiatives are continuously taken to preserve and leverage this strength. We regularly undertake skill development initiatives to align employees' skillset with evolving

'Changing Lives', our CSR interventions, continues to be a core tenet of your company delivering its commitment to bring about a lasting and holistic impact for enhancing social value, with a contribution of ₹13.59 crore towards CSR activities during FY22. These encapsulate a large gamut including health, women empowerment, and skill development with an emphasis on aspirational districts across the country

Your company accords the highest importance to transparency, accountability, and responsiveness in all facets of its operations, implementing the precepts of Corporate Governance in letter and spirit.

All the above would not have been possible without the continuous support and guidance of our parent Ministry and our stakeholders for which we are

thankful. We assure them of giving our best and that we will continue to channelise our energies on leveraging our distinct brand identity, our endeavour always being to follow the mantra: 'Not just more of the same, but much more of the New

(This does not purport to be a record of proceedings of

Rahul Mithal Chairman & Managing Director



Transforming to GREEN

URBAN ENGINEERING & SUSTAINABILITY | HIGHWAYS & TUNNELS | BUILDINGS, AIRPORTS & BRIDGES | PORTS & HARBOURS | EXPORTS & LEASING

non-LoC modes of funding.

कब्जा सूचना

सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथ प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत दिनांक 06.09.2021 को एक मांग सचना जारी की गई थी जिसमें कर्जदार मैसर्स आर आर डिस्टिबार्स पादवेट लिमिटेड/श्री अमन गप्ता/ श्री राजकमार गुप्ता, जिनका गृह ऋण संख्या 52677931 (पुराना ऋण खाता नं. 51964031 52206042600 तथा 100467053) है, को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम रु. 7,64,48,944.22 (रुपये सात करोड़ चौसठ लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चौवालीस एवं पैसे बाईस मात्र) चुकता करने को कहा गया था। कर्जदारों द्वारा उक्त रकम का भगतान करने में असफल होने के कारण एतददारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा 14 सितम्बर, 2022 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभृत सम्पत्तियों को मृक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतददारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा रु. 7.64.48.944.22 (रुपये सात करोड़ चौसठ लाख अडतालीस हजार नौ सौ चौवालीस एवं पैसे बाईस मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का

अचल सम्पत्ति का विवरणः-सम्पत्ति सं. बी-36, सीसी कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के निकट, दिल्ली-110007 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा

दिनांक: 17.09.2022 अधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

स्थान : नई दिल्ली

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार मनोज कुमार; आरजेड-595, गली नं.-1, प्रताप विहार पार्ट-2, नांगलोई, न्यू नेवजपुर, नई दिल्ली, दिल्ली -110041, मनोज कुमार; ए-68, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली -110006, राधा पांडे; आरजेड-595, गली नं.-1, प्रताप विहार पार्ट-2, नांगलोई, न्यू नेवजपुर, नई दिल्ली, दिल्ली -110041, को 18.11.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00316624 की राशि रू.4,77,551.57 (रूपये चार लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ इक्यावन और सत्तावन पैसे मात्र) और 18.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.09.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.4,77,551.57 (रूपये चार लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ इक्यावन और सत्तावन पैसे मात्र) 18.11.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.-एस-5, दूसरी मंजिल, पीछे दाहिने हाथ की ओर एलआईजी, प्लॉट नं.-बी-1/143, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-॥, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.09.2022 इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गाजियाबाद

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **आबिद अब्बासी और सलमा अब्बासी** को 18.02.2022 की सचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज** खाता नं. HHLNOD00356457 की राशि रू. 16,02,343.70 (रूपये सोलह लाख दो हजार तीन सौ

से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके

तैंतालीस और सत्तर पैसे मात्र) और 07.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख

14.09.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है । विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 16.02.343.70 (रूपये सोलह लाख दो हजार तीन सौ तैंतालीस और सत्तर पैसे मात्र) 07.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स

हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.एस 2, दूसरी मंजिल, पिछे बाएं हाथ की ओर, प्लॉट नं. सी 1/81, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन II, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 और निम्ननुसार परिबध्द है :

पूर्व : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार

उत्तर : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार

स्थान : गाजियाबाद

पश्चिम : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार दक्षिण : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सही/ प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 14.09.2022

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

जब कि.

स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार उमेश चंद्र और राशि श्रीवास्तव को 18.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता** नं. HHLDCP00315530 की राशि रू. 16,29,385.56 (रूपये सोलह लाख उनतीस हजार तीन सौ पचासी और छप्पन पैसे मात्र) और 07.02.2022 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.09.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदूद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 16.29.385.56 (रूपये सोलह लाख उनतीस हजार तीन सौ पचासी और छप्पन पैसे मात्र) 07.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं- जीएफ-4, तल मंजिल, (बी+जी+2), प्लॉट नं.-ए-26, एसएलएफ वेद विहार लोनी, गाज़ियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201002 और निम्ननुसार परिबध्द है : पूर्व : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार

पश्चिम : टाइटल डीड के उल्लेखानसार उत्तर : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार दक्षिण : टाइटल डीड के उल्लेखानसा

दिनांक : 14.09.2022 प्राधिकत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गाजियाबाद

सही/

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राशिद, समीउद्दीन अंसारी, कृष्णा और कुलदीप चौधरी को 15.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOI00273771की राशि रू.19.13.759.84 (रूपये उन्नीस लाख तेरह हजार सात सौ उनसठ और चौरासी पैसे मात्र) और 10.09.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **14.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.19,13,759.84 (रूपये उन्नीस लाख तेरह हजार सात सौ उनसठ और चौरासी पैसे मात्र) 10.09.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्य लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.यूजी-1, ऊपरी तल मंजिल, सामने दाहिने हाथ की ओर, प्लॉट नं. ए-159, ब्लॉक ए, एसएलएफ वेद विहार, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201102 और निम्ननुसार परिबद्ध है:-

पश्चिम : टाइटल डीड के अनसार

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार

दिनांक : 14.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी स्थान : गाज़ियाबाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09 कम्प्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार नई दिल्ली – **110057** फोन : 011 4926700, टोल फ्री सं. 1800 212 8800, ई—मेल : customer.care@herohfl.com वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | CIN : U65192DL2016PLC30148 संपर्क पता: भवन सं. 07 , दूसरा तल, कम्प्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के सहपठित परिशिष्ट—IV के अंतर्गत नबकि अधोहरूनाक्षरी ने हीरो हाउसिंग फार्डनेंस लिमिटेड के पाधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीर , प्रवास परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत और प्रतिभृति हेत (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को निम्न मांग सूचना जारी उधारकर्ताओं को सूचना में उल्लेखित उत्त सचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप से और सामान्य रूप से सर्व—सामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उत्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व-सामान्य को एतद द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करें है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार निम्न राशि के लिए और उस पर व्याज दण्डात्मक ब्याज, शुल्क लागत आदि के साथ निम्न उल्लेखित दिनांक से संदर्भित हीरो हाउसिंग फादनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधिन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाया जा सके।

ऋण खाता संख्या	बाध्यकार(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की दिनांक/ मांग सूचना अनुसार राशि	कब्जे की दिनांक (रचनात्मक / भौतिक)	
HHFDELHOU 19000002071	श्रीमती बेबी पुत्री फुद्दन और मुन्ना पुत्र लिला	26/11/2021, रूपये.16,16,560/— दिनांक : 24/11/2021 तक	13/09/2022 (भौतिक)	

प्रत्याभूत संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण : फ्लैट सं. एफएफ–2, प्रथम तल (एलआईजी वाएं ओर सामने की तरफ) प्लॉट सं सी 1/4, डीएलएफ दिलशाद गार्डन एक्टेशन–2, ग्राम ब्रह्मपुरा उर्फ भोपुरा, रमाना लोनी तहस्रील और जिला गाजिसाबाद, उत्तर प्रदेश—20,1005, जिसका कराई क्षेत्र मापक 400 वर हटयानी 37.16 वर्ग मीटर, सीमांकन : उत्तर : प्लॉट सं. सी–1/3, पूर्व : प्लॉट सं. सी–1/23, दक्षिण लॉट सं. सी—1/5, पश्चिम : 40 फुट चौड़ी सड़क

आकांक्षा सिंघाल | 19/01/2021, रुपये 26,27,735/- 13/09/2023 और मयूर सिंघाल | दिनांक: 19/01/2022 तक (भौतिक) HHFGAZIPL20000011325 & HHFGAZHOU20000011319 और मयूर सिंघाल

<mark>प्रत्याभूत संपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण :</mark> फ्लैट सं टीएफ—I,तीसरा तल सामने दाएं हाथ की ओर, एचआई.जी, बिना छत अधिकारों , ब्लॉक–ए, प्लॉट सं.९/९ बी, ९ सी, ९डी और ९ ई, श्याम एन्चलेव, ग्राम पसोदा, पराना लोनी, तहसील औव जिला गाजियाबाद, उतत्र प्रदेश—201005, जिसका कवर्ड क्षेत्र, प्रान पपसोदा, पराना लोनी, तहसील औव जिला गाजियाबाद, उतत्र प्रदेश—201005, जिसका कवर्ड क्षेत्र, मापक 90 वर्ग गज यानी 75.24 वर्ग मीटर, सीमांकन : उत्तर : भूतल पप 45 मीटर चौड़ी सड़क,, पूर्व : प्लॉट

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी प्रति हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड **स्थान :** दिल्ली **दिनांक** • 17 09 2022

कब्जा सूचना

सही/

एडलवेइिस एस्सेट रिकंस्ट्रशन कंपनी लि. CIN: U67100MH2007PLC174759 **रिटेल सेंट्रल व पंजी. कार्यालय:** एडलवेड्सि हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अघिनियम) 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां वर्णित प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी(यों) को बुलाने के लिए यहां नीचे वर्णित अनुसार मांग सूचना जारी की थी।

नुसार के प्रति प्रसाइनर ने **एडलवेडिस एस्सेट रिकेस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**, यहां नीचे वर्णित विभिन्न ट्रस्ट (यहां के बाद इसके बाद यहां वर्णित एसाइनर ने **एडलवेडिस एस्सेट रिकेस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**, यहां नीचे वर्णित विभिन्न ट्रस्ट (यहां के बाद **"ईएआरसी"** के रूप में संदर्भित) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत को वित्तीय परिसंपत्तियां एसाइन की थी। सरफेसी **इर्आरपा** के रूप ने सदीमत्ते के ट्रस्टा के रूप में अपनी बमती में कायरत को वित्तीय परिस्पादियाँ रसाइन की थीं। सरिफ्ता अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत एसाइनमेंट अनुबंध के अनुपालन में, ईएआरपी ने ऋणी द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरपी** में निहित प्रतिभूति हितों, गारंटी, वादों के सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में एसाइनर के सभी अधिकारों, टाइटल और हितों व एसाइनर के कार्यों को किया है और **ईएआरपी** ने प्रतिभूतित ऋणदाता के सभी अधिकारों को पालन किया है। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूबित किया जाता है कि एडलवेड्सि एस्सेट ऋणी शारी की मुंगतान करने ने असफल रहें, एतद्वारा ऋणी आर सवसाधारण का सूचिता क्या जाता है कि एडलवाइस एससट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक संपत्ति के लिए वर्णित तिथि पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। विशेष रूप से ऋणी व सर्वसाधारणा को संपत्ति के साथ डील न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ की गई कोई डील नीचे वर्णित राशि व उसपर ब्याज के लिए एडलवेड्स एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगी।

१७०१पाइरा १रराट रिकर्र्र प्रया किंगा लिगिट के अगार की प्रियं होगी।							
क्र. सं.	एसाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋणी का नाम व सह—ऋणी(यों) का नाम	मांग सूचना की राशि व तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे की स्थिति
1	हाजासग फाइनेंस	"ईएआर सी ट्रस्ट एससी— 371	[234-	नीलम जाटव (ऋणी)/ मुकेश कुमार सिंह ('सह—ऋणी') के सहित	रु. 14,90,945.65 /— (रुपए चौदह लाख नब्बे हजार नौ सौ पैंतालीस व पैसे पैंसठ केवल) 15.10.2020	14.09.2022	सांकेतिक कब्जा

संपत्ति का विवरण : प्लॉट का भाग व पार्सल, माप पूर्व 27 फूट 9 इंच, पश्चिम 27 फूट 9 इंच उत्तर 33 फूट 6 इंच दक्षिण 33 फूट 6 इंच कुल क्षेत्र 87.09 वर्ग मीटर 104.16 वर्ग यार्ड खसरा नं. 422, मीउजा औरंगाबाद बंगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, सीमाएं : उत्तर सेलर की भूमि, दक्षिण : हरप्रसाद का प्लॉट, पूर्व : हरबाबू का प्लॉट, पश्चिम : गली 15 फुट चौड़ी

प्रचडीबी फाइनेंशियल मंदिस सिंह निमेटेड ('एचडीबी' / 'एसाइनर') 'ईएआर सी तिमेटेड (एससी- 410 प्रीतम सिंह (ऋणी) / प्रेमवती ('सह—ऋणी'') के सहित रू. 19,66,297.59 / - (रुपए उन्नीस लाख छियासठ हजार दो सौ सतानवे व पेसे उनसठ केवल) 12.10.2020 14.09.202	सांकेतिक कब्जा
---	-------------------

संपत्ति का विवरण : प्लॉट बियरिंग नं. 33 के सभी भाग व पार्सल, माप क्षेत्र 83.61 वर्ग मीटर या 100 वर्ग यार्ड खसरा नं. 385मे, वार्ड नं. 16,जयसिंहपुरा बंगर, अग्रसेन नगर के तहत, बंगाल कॉलोनी, तहसील व जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, संपत्ति **सीमाएं** : पूर्व में : दिनेश का प्लॉट, पश्चिम में : डैनी का प्लॉट, उत्तर में : घनश्याम का प्लॉट, दक्षिण में : रास्ता 15 फ़ुट चौड़ा

हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी एडलवेड्सि एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड स्थान : मथुरा दिनांक : 14.09.2022 ★ Edelweiss ASSET RECONSTRUCTION

एचसीएल इंफोसिस्ट्म्स लिमिटेड

सीआईएन् : L72200DL1986PLC023955 पंजीकृत कार्यालय: 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 निगमित कार्यालय: ए-11, सेक्टर-3 नोएडा-201301 (उ.प्र.) फोनः +91-120-2520977, 2526518/519, फैक्सः +91 120 2523791 ई-मेल: cosec@hcl.com, वेबसाइट: www.hclinfosystems.in

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का शुद्धिपत्र

कंपनी की 36वीं वार्षिक आम सभा ('**'एजीएम''**) दिनांक 9 अगस्त, 2022 और कंपनी की एजीएम की उक्त सूचना और वित्तीय वर्ष 2021—2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में समाचार पत्र विज्ञापन दिनांक 27 अगस्त. 2022 की सचना की निरंतरता में, हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट ए के खंड (vii)(बी) के तहत वर्णित कुछ आंकड़ें (वार्षिक रिपोर्ट के पेज नंबर 56 से शरू और 61 तक) और पहले रु. करोड़ की जगह रु. लाख में प्रदर्शित थे।

. अवश्थारकों से ध्यान देने का अनुरोध है कि इसे सही करने के लिए, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने संशोधित अंकेक्षक रिपोर्ट, 14 सितंबर, 2022 जारी की है। उपरोक्त सुधार के अलावा संशोधित वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट में. कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त संशोधन के तहत वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई परिवर्तन नहीं है। संशोधित वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के लिए शुद्धिपत्र 14 सितंबर, 2022 को आयोजित बैठक में खाता व अंकेक्षिण समिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के लिए उक्त शुद्धिपत्र ई–मेल द्वारा कंपनी के शेयरधारकों और अन्य सभी व्यक्तियों जो निगमित मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 के अनुपालन में सूचना प्राप्त करने के पात्र हैं को 16 सितंबर, 2022 को भेजी जा चुकी है। यह शुद्धिपत्र स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए अपडेटिड वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट <u>www.hclinfosystems.in</u> पर अपलोड की गई है।

यह शुद्धिपत्र वार्षिक रिपोर्ट और वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट के आतंरिक भाग के रूप में है वार्षिक रिपोर्ट और वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ी जाएगी। जहां कहीं वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट का संदर्भ संशोधित वैधानिक अंकेक्षक रिपोर्ट दिनांक 14 सितंबर, 2022 के अर्थ में दी जा रही है

एचसीएल इंफोसिस्ट्म्स लिमिटेड की ओर से व उन्हीं के लिए हस्ता. / -

स्थान : नोएड कोमल बाथला कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी दिनांक : 16 सितंबर, 2022

हद्दोस रोड, ननगमबक्कम, चेन्नई 600 006

ऋण वसूली न्यायाधिकरण सं. ॥, चेन्नई छठवीं मंजिल, एडिशनल ऑफिस बिल्डिंग, शास्त्री भवन,

दूरभाषः 28498182 डीआरसी सं 323/2019

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि., मुम्बई

दिनांक: 29/08/2022

मैसर्स मित्तल इस्पात लि. एवं अन्य

प्रतिवादी/प्रमाणपत्र कर्जदार मांग सूचना

आवेदक/प्रमाणपत्र ऋणदाता

प्रति, **(1) मैसर्स मित्तल इस्पात लि**. अपने निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व, **(2) मैसर्स श्रद्धा** कॉस्टिंग लि. अपने निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व, क्रमांक 1 एवं 2 का पताः आरएस नं. 46 कुड्डालोर रोड, किरुममपक्कम, बहौर, पुडूचेरी-607 402, (3) श्री आर. पी. मित्तल, (4) श्रीमती सरला मित्तल, (5) सुश्री वंदना मित्तल, क्रमांक 3 से 5 का पता:- सं. 81 सैनिक फॉर्म्स, एम.बी. रोड, खंदपुर, नई दिल्ली–110 062, **(6) श्री राजीव कुमार गुप्ता**, सं. 700 माउंट रोड, मालिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, चेन्नई-600 006, **(7) श्री एम. सी**. मित्तल, सं. सी-53, श्रीनिवास टावर, विल्लूपुरम मेन रोड, पुडूचेरी-605010

माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली प्राधिकरण-॥, चेन्नई द्वारा ऋणों की वसूली तथ ऋण शोधन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप-धारा 7 एवं 22 (समय-समय पर यथ संशोधन) के अधीन ओ.ए. नं. 767/2014 में एमए 53/2019 दिनांक 21/10/2019 के आदेश के मार्फत दिनांक 08/11/2019 को जारी वसूली प्रमाणपत्र डीआरसी सं. 323/ 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के मद्देनजर आपसे रु. 18.18.76.495/- (रुपये अद्वारह करोड अद्वारह लाख छिहत्तर हजार चार सौ पनचानवे मात्र) साथ में रु. 9.75.38.628.39 पैसे [रु. 3,79,38,584.86 पैसे तथा रु. 5,96,00,043.53 पैसे] पर दिनांक 22/10/2019 से रकम की वसूली की तारीख तक सालाना 8% की दर से सामान्य ब्याज तथा लागत की रकम आप पर बकाया/वसूली योग्य है, जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक (डीआरसी) में उपलब्ध है।

2. एतदद्वारा आपको इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर प्रमाणपत्र ऋणदाता बैंक के पास उपर उल्लेखित जमा करना होगा, अन्यथा लागु नियमों के अनुसार संबंधित रकम की वसली की जाएगी।

 उपर उल्लेखित रकम के अलावा आपको सूचना की सेवा, अन्य प्रक्रियाओं/वारंटों तथा सम्पर्ण बकाया रकम की वसली के लिए अन्य सभी प्रकार की कार्रवाइयों पर होने वाले सभी लागतों. शल्कों. व्यय का भी भगतान करना होगा।

4. यह मांग सूचना समाचारपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है चूंकि इसकी पूर्ववर्ती सूचना दिनांकित 14/11/2019 उपरोक्त प्रमाणपत्र कर्जदार 1 से 4 के पास भेजी गई थी, जो "असेवित" वापस आ गई थी। अगली सूनवाई दिनांक 06/10/2022 को पूर्वाहन 11.30 बजे निर्धारित की गई है। (रमेश मन्नार

वसूली अधिकारी

JTEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN - L29113DL1984PLC018415) पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001. फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in

सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और 110 और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित लागू दिशानिर्देशों / कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा इस संबंध में सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अनुसरण में सदस्यगण कृपया नोट करें कि जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") पोस्टल बैलट सूचना ("सूचना") में दिए विस्तृत विवरण के अनुसार, इसकी संबंधित पार्टियों के साथ मैटीरियल रांबंधित पार्टी संव्यवहारों में प्रवेश हेतु, सदस्यों की सहमति केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से डाक-मतदान द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव कर रही है। एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, कम्पनी ने पोस्टल बैलेट सूचना को केवल इलेक्ट्रॉनिक

माध्यम से, कंपनी के उन सदस्यों को भेजने का कार्य शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया है, जिनके नाम कम्पनी/डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर क्रमशः सदस्यों के . रजिस्टर/लाभार्थी रवामियों की सूची में शामिल हैं और जिनके ई—मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलेट सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jtekt.co.in पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ mm.picco.com इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') www.nseindia.com पर, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची ग शामिल हैं, वे पोस्टल बैलेट सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोर्ट करने के हकदार हैं। सदस्य के वोटिंग अधिकारों की गणना कट—ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित चुकता इक्विटी शेयर के अनुपात में की जाएगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वा पोस्टलं बैलेट सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा।

एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, कम्पनी ने अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है, ताँकि वे भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिव रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार रिमोर्ट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा। कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केफिन को अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलेट सूचना में रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश दिए गए हैं। रिमोव ई—वोटिंग सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और मंगलवार 18 अक्टूबर, 2022 को 17:00 बर्ज (आईएसटी) समाप्त होगी। उक्त मतदान अवधि समाप्त होने पर केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। श्री अरूण कुमार गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या A21227) या उनकी अनुपरिधति में श्री कपूर चंद गर्ग, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या F7145) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन की जांच–पड़ताल करने

हेतु जांचकर्ता नियुक्त किया गया है। पोस्टल बैलेट का परिणाम रिमोट ई-वोटिंग बंद होने के दो कार्यदिवस के भीतर घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किय जाएगा। परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट, केफिन की वेबसाइट पर भी अपलोड किय जाएंगा और एनएसई और बीएसई को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न, स्पष्टीकरण(णों) और / या शिकायत(तों) के मामले में, कृपया केफिन की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.asp</u> के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य'ज़् सेक्शन और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ग्रहण करें या श्री राजीव कुमार rajeev.kr@kfintech.com पर सम्पर्क करें या किसी और स्पष्टीकरण के लिए केफिन के टोट फ्री नंबर 1800–309–4001 पर कॉल करें।

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटे आशीष श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम तिथि : 16 सितम्बर 2022

To book your copy,

SMS reachbs to 57575 or

email us at order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडि<mark>याबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)</mark> प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार मसीह इकबाल; जी/सी III / 117, एस एफ इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001, मसीह इकबाल: एस-531,तल मंजिल, स्कल ब्लॉक, शकरपर, नई दिल्ली, दिल्ली 110092, आफरीन खातून ; जी/ सी III / 117, एस एफ इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001, राजेश कमार राव: प्लॉट नं. 21, जीएफ, ज्ञान खंड 3. शिप्रा रिवेरा अपार्टमेंटस के पास, इंदिरापरम, <mark>गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201014</mark> को 28.10.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं.** HHLNOI00335871 की राशि रू.50.62.417.21 (रूपये पचास लाख बासठ हजार चार सौ सत्रह और इक्कीस पैसे मात्र) और 21.10.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.09.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.50,62,417.21 (रूपये पचास लाख बासठ हजार चार सौ सत्रह और इक्कीस पैसे मात्र) 21.10.2021के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण मकान नं. 21, तल मंजिल, ज्ञान खंड-।।।, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010 ।

दिनांक : 14.09.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गाज़ियाबाद

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार वैशाली आनंद; कमर्शियल ब्लॉक 3, झोन 6, डीएलएफ सिटी, फेज ∨, गुड़गाँव, हरियाणा- 122011, वैशाली आनंद; आई-67, ब्लॉक सी, न्यू पालम विहार, फेज 1, चोमा (62), कार्टरपुरी फारूखनगर, गुड़गाँव, हरियाणा -122017, कमल जीत; आई-67, ब्लॉक सी, न्यू पालम विहार, फेज 1, चोमा (62), कार्टरपुरी फारूखनगर, गुड़गाँव, हरियाणा -122017, संजय; मकान नं. 88, गाँव और पोस्ट सफ़ुद्दीनपुर जवाली लोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 200111, को 18.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOI00179203 की राशि रू.13,07,671.42 (रूपये तेरह लाख सात हजार छह सौ इकहत्तर और बयालीस पैसे मात्र) और 26.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.09.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशिक्त.13,07,671.42 (रूपये तेरह लाख सात हजार छह सौ इकहत्तर और बयालीस पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण फ्लैट नं.-एफएफ-6, पहली मंजिल, पिछला मध्य, प्लॉट नं.-बी-1/74, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन,

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश- २००११। । प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.09.2022

SHRIRAM City

कर्जदार का नाम एवं पता

स्थान : गाजियाबाद

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्य लिमिटेड

सम्पत्ति का विवरण

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 खा कार्यालय : 245-246, दूसरी मंजिल, ओम करम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्र**प** मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021, वेबसाइट : http://www.shriramcity.in सांकेतिक कब्जा सूचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम सिटी युनियम फाइनेंस लिमिटेड (एससीयुएफ) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों को कथित मांग सचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की थीं जिसका विवरण निम्नलिखिल तालिका में है। राशि के पुनर्भुगतान में कर्जदार के असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 13 एवं 14 सितम्बर, 2022 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वार्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

मांग सचना

		ऋण संख्या	मांग सूचना तिथि :	वाणिज्यिक संपत्ति-
节 CDUD2		CDUD2LP2107160001	20-06-2022	ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर,
		मैसर्स एस.के. टायर्स	रु. 10452137∕-	जिल्हा - उदराष्टुर
용		(प्रोपराइटर श्री मोहम्मद	(रुपये एक करोड़	(राजस्थान) में
		आजाद शेख)	चार लाख बावन	स्थित/भूमि/प्लॉट/नंबर
नी		2ए, ट्रांसपोर्ट नगर, एनआर	हजार एक सौ	02-ए, (प्लॉट नंबर 02
क ग		एलपीजी पंप, उदयपुर	सैंतीस मात्र)	का हिस्सा, ब्लॉक-डी)
기 ન		313001	दिनांक 18.06.2022	का समस्त भाग, माप 833
1		श्री मोहम्मद आजाद शेख	को फोर क्लोजर	वर्ग फुट।
ਟ		पुत्र नत्थे खान	राशि के अनुसार	सीमा विवरण- पूर्व:-प्लॉट
र, ने		श्रीमती शबनम बेगम पत्नी	तथा नियम एवं	नं02-डी, पश्चिम:- रोड,
ㅋ		आजाद शेख-	शर्तों के अनुसार	उत्तर:-प्लॉट नं02,
நி		87, मुर्शिद नगर सवीना,	भावी ब्याज तथा	दक्षिण:-प्लॉट नं02-बी
ने		उदयपुर 313002	प्रभार	
ने		सांकेतिक कब्जे की तारीख-		
		13-सितंबर-2022		
या या				
या		ऋण खाता संख्या	मांग सुचना तिथि :	आवासीय सम्पत्ति :
		CDUD2TF2103190001	30-04-2022	भूमि ⁄प्लॉट नं. 26 का
के		तथा	रु. 4861173∕-	सम्पूर्ण भाग, आरकी नं.
Į) X		CDUD2TF1904030001	(रुपये अड़तालीस	525/67, सुन्दरवास,
सं		मैसर्स एक्सपर्ट डिजिटल	लाख इकसठ हजार	तहसील गिरवा, जिला-
ल		(प्रोपराइटर श्री अरुण	एक सौ तिहत्तर	उदयपुर (राजस्थान), माप
ड		चौधरी)	मात्र) दिनांक	1365 वर्ग फीट,
٦		108, कंडा बिजिनेस सेंटर,	28.04.2022 को	सीमा विवरण :
व		मेवाड़ मोटर्स लेन,	फोर क्लोजर राशि	पूर्व : रोड, पश्चिम :
व		उदयपुर-313001	के अनुसार तथा	वाणिज्यिक प्लॉट खसरा
		श्री अरुण चौधरी	नियम एवं शर्तों के	नं. 30-31, उत्तर : प्लॉट
		पुत्र रमेश चौधरी	अनुसार भावी	नं. 25, दक्षिण : प्लॉट नं.
			ब्याज तथा प्रभार	27
		श्री रमेश चौधरी पुत्र मांगी		
		लाल चौधरी		
		25, रोड नं. 3, राजश्री		l

प्रतिभृति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान

ह./-अधिकृत प्राधिकारी स्थान : उदयपुर तिथि : 13/09/2022 तथा 14.09.2022 श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

14 सितम्बर, 2022

सांकेतिक कब्जा दिनांक-

कॉलोनी, बोहरा गणेश,

गिरवा, उदयपुर-313001